

Date: July 25, 2023

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
25th Floor P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai -400 051

Scrip Code: 532900 (Equity)

SCRIP SYMBOL: PAISALO

Subject : Intimation regarding Publication of Financial Results in Newspapers

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy of Newspapers in which the financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2023, as approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on July 24, 2023, were published on July 25, 2023, pursuant to applicable regulations of SEBI(LODR) Regulations, 2015

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Paisalo Digital Limited

(MANENDRA SINGH)
Company Secretary



PAISALO DIGITAL LIMITED

Registered Office: CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi - 110 019. Phone : + 91 11 4351 8888. Email: delhi@paisalo.in

Head Office: Paisalo House, 74, Gandhi Nagar, NH-2, Agra - 282 003, India. Phone : +91 562 402 8888. Email: agra@paisalo.in

CIN: U65921DL1992PLC120483

www.paisalo.in

अर्थ: समाजस्य न्यासः

**AB
RUKNA
NAHI.**

NSE: PAISALO
BSE: PAISALO

AUM
₹ 36,444 mn
YoY growth 34%

PAT
₹ 384 mn
YoY growth 84%

NNPA
0.04%

PAISALO
EASY LOAN आसान लोन

PAISALO DIGITAL LIMITED

Regd. Off. CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi-110019
Tel: +91 11 43518888 Fax: +91 11 43518816 Web: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483

अर्थ: समाजस्य च्यात्रः

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2023

(₹ in Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total Revenue from operations	₹13,618.38	₹11,798.51	₹11,264.20	₹47,318.99
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	₹5,204.11	₹3,238.91	₹2,872.97	₹1,307.65
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	₹5,204.11	₹2,786.04	₹2,872.97	₹12,623.72
Net Profit for the period after tax	₹3,840.82	₹2,066.06	₹2,087.22	₹9,361.86
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	₹3,840.82	₹2,066.06	₹2,087.22	₹9,361.86
Paid up Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- per share)	₹4,490.22	₹4,490.22	₹4,391.22	₹4,490.22
Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet of previous accounting Year)	-	-	-	1,11,762.91
Earnings per Share (of Re. 1 each) (not annualized) Basic & Diluted	₹0.86	₹0.46	₹0.48	₹2.10

Notes:

1. The key standalone financial information of the Company is as under:


Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total Revenue from operations	₹12,173.75	₹10,406.91	₹10,192.97	₹42,297.19
Profit before tax	₹5,140.69	₹2,624.19	₹2,844.45	₹12,383.02
Profit after tax	₹3,780.35	₹1,933.49	₹2,065.57	₹9,169.25

2. The above is an extract of the detailed Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results (Consolidated/Standalone) are available on the website (www.paisalo.in) and on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

3. Figures for the quarter ended 31st March, 2023 are the balancing figures for the full financial year ended 31st March, 2023 and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.

SMALL INCOME GENERATION ASSET BACKED MSME & SME BUSINESS CORRESPONDENT

www.paisalo.in FOLLOW US: f in t @



We will either find a way or make one...
Dwarikesh Sugar Industries Limited

(Registered Office: Dwarikesh Nagar - 246762, District Bijnor, Uttar Pradesh)
Tel: +91 01343 267061-64, Fax no: +91 01343 267065, email: investors@dwarikesh.com
website: www.dwarikesh.com, CIN NO: LI3421UP1993PLC018642

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(₹ In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	57,121.00	2,10,296.00	64,646.07
2	Net Profit for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,908.52	15,250.58	5,670.14
3	Net Profit for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,908.52	15,250.58	5,670.14
4	Net Profit for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,061.99	10,481.06	3,969.85
5	Total Comprehensive Income for the periods/years (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,061.99	10,416.71	3,969.85
6	Paid up Equity share capital (face value ₹ 1/- each)	1,883.01	1,883.01	1,883.01
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet.	-	-	72,096.39
8	Securities Premium account as shown in the Audited Balance Sheet.	-	-	14,688.11
9	Net worth as shown in the Audited Balance Sheet.	-	-	73,979.40
10	Earnings Per Share (face value of ₹ 1/- each not annualised) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic ₹	2.16	5.57	2.11
	2. Diluted ₹	2.16	5.57	2.11

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) as well on the company's website (www.dwarikesh.com).

Place: Mumbai
Date: 24th July 2023

Sd/-
Vijay S Banka
Managing Director
DIN: 00963535

AdFactors 165

National Conference

Real Estate Development and Action Plan for New India

July 26, 2023 | New Delhi

Key Discussion Areas

- Delhi Master Plan-2041: Land Pooling and Transit-Oriented Development (TOD)
- Regeneration of City and Inclusive development
- RERA implementation Provisions
- GST Issues, Real Estate Financing and Stalled Projects
- Incentives for Affordable Housing and Green Buildings

Invited Eminent Speakers

Bharat 100
100 Most Valuable Companies in India

Sh. Kaushal Kishore
Hon'ble Minister of State
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

Sh. Anand Kumar
Chairman
Real Estate Regulatory Authority
NCT of Delhi

Sh. Subhashish Panda
Vice-Chairman
Delhi Development Authority
Govt. of India

Sh. Vijay Kumar Goyal
Member
Haryana Real Estate Regulatory
Authority (HREERA)

Sh. Sathish Singh Chauhan
Chairman
Fardabad Metropolitan
Development Authority, Fardabad

Prof. Dr. P.S.N. Rao
Member, High Level Committee
on Urban Planning, MoHUA
Government of India

Smt. Dakshita Das
Former MD & CEO
National Housing Bank

Sh. Pradeep Aggarwal
Chairman, National Council on Real
Estate Housing and Urban Development
ASSOCHAM & Founder & Chairman
Signature Global (India) Ltd.

Sh. Vineet Kanwar
Co-Chairman, National Council
on Real Estate and Urban Development
ASSOCHAM & Group Executive,
Director, Corporate Affairs, D.F. Limited

Sh. Lalit Aggarwal
Vice Chairman &
Whole Time Director
Signature Global (India) Ltd.

Sh. Prabhakar Sinha
Editor, Real Estate
Times of India

Sh. Ravi Aggarwal
Managing Director
Signature Global (India) Ltd.

CA Himanshu Goyal
Executive Member
ASSOCHAM & Partner
Ramesand Goyal & Co.

Sh. Jyoti Prakash Gadia
Managing Director
Resurgent India Limited

Dr. Arun Mohan
Sr. Advocate

Sh. S.C. Aggarwal
Chairman & Managing Director
SMC Group

Sh. Sanjeev Alawadi
Head - Legal
MAX Estates

Ar. Deepak Mehta
Architect
Deepak Mehta & Associates

Sh. Vineet Relia
Director, Urbanity
Development Management
Services Pvt. Ltd.

Dr. Dhiraaj Kumar Singh
Managing Director
GRC India

Sh. Gaurav Jain
Managing Director
SAMYAK Properties &
Infrastructure Pvt. Ltd.

Sh. Harmit Chawla
Managing Director
RESCORP Realty Pvt. Ltd.

Sh. Kapil Kumar Sharma
Founding Partner
Elixir Legal

Dr. Renu Singh
President, Sales and
Marketing
Spazio Towers Pvt. Ltd.

Ar. Anur Rawal
Principal Urban Planner
Architect and Urban Designer,
ARA

Conference Partner

Principal Partner

Co-Sponsor

Supporters

Knowledge Partner

For more information, please contact: Mr. Kaushal Lal Gupta, +91-98108 66233; kaushal.gupta@assochem.org

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India

Follow us on: f in t @

'Working to get back top spot in 2-3 years'

Guveen Aulakh
guveen.aulakh@livemint.com

China's Xiaomi is working to reclaim its leadership position in the Indian smartphone market amid increasing competition within two to three years. Muralikrishnan B, India president at Xiaomi said. In an interview, Muralikrishnan said the company aims to achieve its goal via increased localization within two to three years, leveraging a targeted 5G portfolio and expanding its offline presence. It considers the recent tepidness in smartphone sales as an opportunity to raise its share in the premium segment, which is projected to witness strong growth. Xiaomi plans to increase sub-assembly components, which is a few notches higher than assembling phones and will start exports to more countries soon. *Edited excerpt.*

INTERVIEW

Xiaomi's market share has been falling over several quarters. What's the strategy to take back the No. 1 spot?

The market is degrowing least in value terms for the past few quarters, while growing in average selling price. The net volume growth is down to 10% year over year. But in value terms, it's probably flat, and most of the decline came in the entry-level segment, which is sub-10,000. But there are green shoots that may influence this in the second half of FY24. While we are not overly excited, I would take it as a pragmatic positivity.

What does it mean for your portfolio?

We are going to the market with a significantly cleaner and leaner portfolio this year. In fact, going back to the good old days, when at every important price point, there was a hero Xiaomi product. We've a successful Redmi Note 12 5G range, and then at the entry level, we launched a couple of options. Unlike last year, we've also been very cautious about not overworking the portfolio this year.

How will Xiaomi be positioned in the 5G smartphone segment?

All phones across brands in the market above ₹20,000 are 5G devices. A majority of them, however, are in the



₹15,000-20,000 price bracket. The ₹10,000-15,000 segment potentially has the largest share, and would call this mass market the holly of the market. Penetration of 5G is there, but perhaps at 30-40%, and therefore we see a significant upside for 5G devices in the ₹10,000-15,000 price bracket. So, our priority number two is to ensure we continue to deliver innovation for everyone. Through the rest of the year, you will see us focusing on fantastic 5G options in the ₹10,000-15,000 price band.

How will it play out for offline sales, which is not your strongest?

While we're No. 1 in the online channel, we see very clear opportunities on a few fronts in growing our offline business. We will be expanding our distribution reach, building strong retail capabilities, enabling our retail partners to become multi-category franchisees, which does not sell smartphones alone, but televisions, laptops, tablets and AIoT products, as well. We are uniquely positioned to do this. We will also scale channel engagement and confidence in terms of improved margins, consistency of schemes, having standard advisory board called inner circle of top distributors.

We have 15 distributors, who are like our extended advisory board, and we consult with them on our entire retail strategy. So, offline becomes the third big pillar of our growth plan for 2023. We have about 60 MI Homes, which will remain constant, but will increase our franchisee-owned, franchisee-operated MI studios and MI stores.

What about scaling up local manufacturing in India?

100% of smartphones and TVs we sell in India are made in India. The big thrust is on localizing our component ecosystem and increasing domestic value addition. Our goal for 2023-26 is to increase value addition by 50% by broadening and deepening local components sourcing.

Muralikrishnan B
President, Xiaomi India

BOM (bill of material) is sourced locally. In two to three years, we want to double it to 70%. Domestic value addition is between 7% and 18%, depending on the model. It will be above 30% in two-three years, by getting into sub-assemblies—sourcing sub-parts going into components. Now, we export to Nepal, Bhutan, Bangladesh, and we're in the advanced stages to scale exports to the Middle East and others.

OTTs hit pause button on box office flops

Lata Jha
lata.j@livemint.com
NEW DELHI

Streaming platforms once considered havens for niche, non-mainstream narratives are no longer willing to splash on movies that failed to resonate with the target audience.

For instance, Kapil Sharma's Zwigato could not strike an OTT deal following its lackluster box office performance. Services are also exercising caution, refraining from court-controversy with political drama. The Kerala State, despite its successful theatrical run.

"There is a realization among OTT players that there is no real value in paying crazy prices for films that do not bring great results and whose viewership drops almost immediately. Especially, if the film hasn't found takers at the box office, there is no point in losing the purse strings and striking deals unless everyone can agree on a really reasonable price," said Yashu Shaikh, business head, feature films at production and distribution firm Percept Pictures.

Furthermore, services no longer want to strike package deals with producers for multiple films, and prefer to pick and choose individual titles now, Shaikh added.

The other big takeaway is that audiences are loyal to the content, and not platforms, and will not think before moving to a different service provider.

After controlling budgets and staying away from direct-to-digital acquisitions, as was common during the first wave of the pandemic, OTT players have learnt another lesson. "Platforms have burnt their fingers yet again with films such as *Bheeth Gumbaz*, which were purchased as part of package deals, but didn't deliver results. Everyone's being choosy, and realises that they don't need more content than they require. And two, box office success is some indication of whether the audience is interested in the film."

A senior executive of a streaming platform said even after controlling budgets and staying away from direct-to-digital acquisitions, as was common during the first wave of the pandemic, OTT players have learnt another lesson. "Platforms have burnt their fingers yet again with films such as *Bheeth Gumbaz*, which were purchased as part of package deals, but didn't deliver results. Everyone's being choosy, and realises that they don't need more content than they require. And two, box office success is some indication of whether the audience is interested in the film."



Audiences are loyal to content, and not platforms, and will not think before moving to a different service provider. **BLOOMBERG**

The person said to last 30-40 Hindi films ready for release haven't been able to sign OTT deals due to uncertainties surrounding their box office success. As far as controversial subjects, such as The Kerala Story go, platforms would rather not ruffle any feathers, he added.

That said, big-ticket films riding on front-line Bollywood stars are wielding significant influence as potential game-changers. While producers recognize the allure of star power, they are no longer interested in investing heavily on publicity and advertising to promote these titles in cinemas. Instead, they are happy to support OTT players, who are willing to help recover the entire production cost, by leveraging a star's appeal.

While *Baahubali* started streaming on Prime Video last weekend, Shahid Kapoor-starrer *Bloody Daddy* on Hot Cinema is the most watched Hindi film on OTT (with a viewership of 16.6 million) for the January to June period, according to a report by media consulting firm Ormax.

Canara Bank Q1 profit surges 75% to ₹3,535 crore

PTI
feedback@livemint.com
NEW DELHI

State-owned Canara Bank on Monday reported a 75% rise in net profit of ₹3,535 crore for the three-quarter, helped by a decline in bad loans and growth in interest income.

The Bengaluru-based lender had posted a net profit of ₹2,022 crore in the year-ago period.

Total income in the first quarter of the current fiscal rose to ₹29,828 crore from ₹23,352 crore in the same period of a year ago, Canara Bank

said in a regulatory filing. Interest earned by the bank rose to ₹25,004 crore from ₹18,377 crore in the year-ago period.

Net interest income (NII) increased 28% to ₹8,666 crore in the latest quarter compared to the same period a year ago.

The net interest margin (NIM) also improved to 3.05% as compared to 2.78% in the year-ago period.

Canara Bank managing director K. Satyanarayana Raju said he expects NIM to be above 3% during the year.

The bank's asset quality showed improvement as gross non-performing assets (NPAs) declined to 5.15% of gross advances at the end of the June quarter. It stood at 6.98% in the year-ago period.

Similarly, net NPA as a percentage of loans declined to 1.57% as against 2.48% in the year-ago period.

As a result, the provision for bad loans came down to ₹2,438 crore as against ₹2,675 crore in

the same quarter a year ago.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

The bank's capital adequacy ratio increased to 16.24% as compared to 14.91% at the end of June 2022.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम, स्वयं सहायक)
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING, MINISTRY OF TEXTILES)

विभिन्न पदों के लिए भर्ती

RECRUITMENT AGAINST VARIOUS POSTS

निम्न विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन पत्रों के लिए वचन स्वीकृत्य से आवेदन आमंत्रित करता है। महत्त्वपूर्ण तिथियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को पंजीयित, पाठानुसार, लिफाफों, कर्पण अनुसंधान, शून्यक, आरक्षण आदि के विवरण के लिए वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर लाइन करें। स्वीकृत्य 24.07.2023 को 10.00 बजे से 13.08.2023 को 23.55 बजे तक केवल। www.cotcorp.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

The Corporation invites application from eligible candidates for online recruitment of various posts. For important dates, procedure for online application, eligibility criteria, vacancies, upper age limit, fee, reservations etc please login to website www.cotcorp.org.in for details. Candidates can apply online from 10.00 hrs on 24.07.2023 till 23.55 hrs on 13.08.2023 on website www.cotcorp.org.in.

उप कर्पणवचन (संशोधन) DGM (HRD)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY
Pune, Mumbai - 400 076

Advertisement No. REG/ADM/0011/2023

Indian Institute of Technology Bombay, an institute of national importance adjudged as Institute of Eminence, invites online application for the following positions (vacancies of the posts):

Sl. No.	Name of the Post	Pay Details	No. of Positions (vacancies) & Reservation
1.	Jr. Engineer (Job Ref. No. 50482264)	Pay Level 6 (₹3400 - 112400)	4 Positions (1 SC, 1 OBC-NCL, 2 UR)
2.	Jr. Engineer (Job Ref. No. 50486250)	Pay Level 6 (₹3400 - 112400)	1 Position (UR)
3.	Jr. Engineer (Job Ref. No. 50486279)	Pay Level 6 (₹3400 - 112400)	1 Position (UR)
4.	Technical Superintendent (Job Ref. No. 50482222)	Pay Level 6 (₹3400 - 112400)	2 Positions (1 SC, 1 OBC-NCL)
5.	Jr. Technician (Medical) (Job Ref. No. 50481717)	Pay Level 3 (21700 - 69100)	1 Position (OBC-NCL)
6.	Jr. Technician (Medical) (Job Ref. No. 50487719)	Pay Level 3 (21700 - 69100)	1 Position (UR)

For details regarding essential educational qualification, experience, general instructions, etc., visit iitb.ac.in or Bombay website <https://www.iitb.ac.in/careers/staff-recruitment>

The date of closing of online application interface is 24.08.2023.
Date : 25.07.2023 **REGISTRAR**

AB RUKNA NAHI.

AUM ₹ 36,444 mn YoY growth 34%

PAT ₹ 384 mn YoY growth 84%

NNPA 0.04%

1377 Touch Points, 18 States, 19L+ Lives Touched

PAISALO
EAST LOAN DIGITAL WALLET

PAISALO ORIGINAL LIMITED

Regd. Off. CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi-110019
Tel: +91 11 43518888 Fax: +91 11 43518816 Web: www.paisalo.in
CN: L56921D, I992, LC120483

अर्थ: समाज का नारा

DIGICONTENT LIMITED
CIN: L14999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India
Tel: +91 11 6656 1234; Fax: +91 11 6656 1210; Email: investor@digicontent.co.in; Website: www.digicontent.co.in

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

Particulars	Quarter Ended		Year ended	
	30.06.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer note 3)	30.06.2022 Un-audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	9,077	9,727	7,923	54,837
(Profit)/Loss for the period (before tax and exceptional)	290	(154)	(739)	(1,237)
(Profit)/Loss for the period before tax (after exceptional)	290	(154)	(739)	(1,237)
(Profit)/Loss for the period after tax (after exceptional)	102	(212)	(644)	(1,266)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax))	136	(206)	(692)	(1,162)
Other Equity Resolving Provision Reserves as per the balance sheet	1,164	1,164	1,164	1,164
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each) Basic & Diluted	(₹) 0.18	(₹) 0.26	(₹) 0.28	(₹) 0.21

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.sebi.gov.in) and on the Company's website (www.digicontent.co.in).
- The above un-audited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meeting held on July 24, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted 'Limited Review' of these results in terms of Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and have issued an unmodified review opinion.
- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

Particulars	Quarter Ended		Year ended	
	30.06.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer note 3)	30.06.2022 Un-audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	36	37	39	150
(Loss) before tax	(382)	(385)	(833)	(1,434)
(Loss) after tax	(382)	(385)	(833)	(1,434)
Total Comprehensive (Loss)	(382)	(385)	(833)	(1,434)

5. The figures of the quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the financial year and the published year to date figures upto December 31, 2022, being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review.

For and on behalf of the Board of Directors
Praveen Somnath
Director
(solely authorized by Board of Directors)
(DIN: 01492662)

New Delhi
July 24, 2023

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2023

(₹ in Lakhs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total Revenue from operations	₹ 13,618.38	₹ 11,798.51	₹ 11,264.20	₹ 47,318.99
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	₹ 5,204.11	₹ 3,238.91	₹ 2,872.97	₹ 13,076.59
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	₹ 5,204.11	₹ 2,786.04	₹ 2,872.97	₹ 12,623.72
Net Profit for the period after tax	₹ 3,840.82	₹ 2,066.06	₹ 2,087.22	₹ 9,361.86
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	₹ 3,840.82	₹ 2,066.06	₹ 2,087.22	₹ 9,361.86
Paid up Equity Share Capital/(Face value of ₹ 1/- per share)	₹ 4,490.22	₹ 4,490.22	₹ 4,391.22	₹ 4,490.22
Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet of previous accounting Year)	–	–	–	(1,172.91)
Earnings per Share (of ₹ 1 each) (not annualized) Basic & Diluted	₹ 0.86	₹ 0.46	₹ 0.48	₹ 2.10

Note:

- The key standalone financial information of the Company is as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total Revenue from operations	₹ 12,173.75	₹ 10,404.91	₹ 10,192.97	₹ 42,227.19
Profit before tax	₹ 5,104.69	₹ 2,624.19	₹ 2,844.45	₹ 12,383.02
Profit after tax	₹ 3,780.35	₹ 1,933.49	₹ 2,065.57	₹ 9,169.25

2. The above is an extract of the detailed Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results (Consolidated/ Standalone) are available on the Website www.paisalo.in and on the Stock Exchange websites i.e. www.sebiindia.com and www.nseindia.com.

3. Figures for the quarter ended 31st March, 2022 are the balancing figures for the full financial year ended 31st March, 2022 and the published year-to-date figures upto the 31st quarter of the respective financial year.

SMALL INCOME GENERATION **ASSET BACKED** **MSME & SME** **BUSINESS CORRESPONDENT**

www.paisalo.in FOLLOW US [f](https://www.facebook.com/paisalo) [i](https://www.instagram.com/paisalo) [in](https://www.linkedin.com/company/paisalo)